



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 1, सोमवार, शके 1941-सितम्बर 23, 2019
Asvina 1, Monday, Saka 1941-September 23, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 13, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/10352 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Rajakhera has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Rajakhera. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

**कार्यालय नगर पालिका मण्डल राजाखेडा (धौलपुर) राज0
प्रोफार्मा - "क"**

वार्ड नं.	ब्लॉक न0	वार्डों का सीमा विवरण
01		गोपालपुरा, करीलकी, सिर्फ गांव एवं महाराणप्रताप नगर नयागांव समस्त खारपुरा गांव समस्त
02		नयेगांव वाली माता से अंबरपुर की ओर चलते हुये पोखर बघेलान तक व पोखर बघेलान की उत्तरी व दक्षिणी पार पर बसी हुयी आबादी को शामिल करते हुये तथा सामुदायिक भवन को छोडते हुये रास्ता राजाखेडा भीमपुरा पर राजाखेडा की ओर चलते हुये उत्तरी साईड लेते हुये मरघटी मेहतेकी तक व रास्ता डोंगरपुर रोड तक डोंगरपुर डामर रोड से पश्चिम की ओर चलते हुये सीमा कस्बा महदवार तक
03		बस्ती जाटवान के रास्ता सामुदायिक भवन से दोनो साईडों को लेते हुये कुआ गली ब्रहंजीत तक दूसरी साईड मंदिर श्री हनुमान जी तक रास्ता राजाखेडा की ओर चलते हुये सईयद तक
04		अंबरपुर मजरा में गली ब्रहंजीत के पुर्वी मुहाने पर स्थित कुआ से रास्ता भीमपुरा की ओर चलते हुये दक्षिणी साईड लेते हुये पोखर बघेला रास्ता जाटवान तक व रास्ता जाटवान की पुर्वी साईड लेते हुये गली ब्रहंजीत के पश्चिमी मुहाने तक गली

		ब्रह्मजीत की दोनो साईडों को लेते हुये पुर्व की ओर चलते हुये बैठक ब्रह्मजीत शामिल करते हुये कुंआ तक
05		गंगोलियापुरा गांव भीमपुरा गाँव समस्त एवं सोमनाथ मंदिर एवं मढी
06		नयी बस्ती मंदिर मेहेतेकी पर रास्ता अंबरपुर से दक्षिण की ओर चलते हुये पुराना ईट भट्टा नत्थीसिंह सर्राफ तक वापस छतरी की ओर चलते हुये पूर्वी साईड डी.एस स्कूल तक दोनो साईड लेते हुये पुर्व की ओर उत्तरी साईड लेते हुये अंबेडकर पार्क ओर होते हुये दीपा राठौर के पुराने मकान होते हुये दक्षिणी साईड लेते हुये मंदिर मेहेतेकी तक मेहेतेकी परिसर में बसी समस्त आबादी इसी में शामिल रहेगी
07		आशाराम डंडोतिया का मकान धौलपुर रोड से पूर्व की ओर चलते हुये दिनेश हलवाई की दुकान होते हुये उत्तर की ओर पश्चिमी साईड लेते हुये संजय सोनी की दुकान होते हुये पश्चिम दिशा लेते हुये जैन धर्मशाला के पीछे पूर्वी साईड लेते हुये बीटू बेडिया वाली गली की दक्षिणी साईड लेते हुये डी.एस स्कूल की दक्षिणी साईड लेते हुये पूर्वी साईड में दक्षिण की ओर चलते हुये बंटी पत्थर वाले की दुकान तक
08		शिव मंदिर से उत्तर की ओर पश्चिमी साईड लेते हुये रामदीन राठौर के कुआ से होते हुये जाटव बस्ती की दोनो साईड एवं समस्त गलीयों को लेते हुये अंबेडकर पार्क होते हुये बीटू बेडिया वाली गली की उत्तरी साईड लेते हुये शिव मंदिर तक पश्चिमी साईड
09		सर्राफ गली मुख्य बाजार में दुकान कैलाशचंद से दक्षिणी साईड लेते हुये मकान सुरेश चंद गुप्ता तक व सुरेशचंद गुप्ता से पूर्वी साईड लेते हुये रामचंद दीक्षित से उत्तरी साईड पुर्व की ओर लेते हुये मकान गिरन जैन लेते हुये पोलियान लेते हुये पटवारी गली शामिल करते हुये मंदिर श्री ठाकुर प्रेम सिंह लेते हुये रामप्यारी धर्मशाला होते हुये दुकान प्रयागदास होते हुये कैलाशचंद जैन की दुकान तक
10		गिर्राज सोनी की दुकान से पश्चिम की ओर उत्तरी साईड लेते हुये बीच का जैन मंदिर होते हुये हेमेन्द्र के मकान से दक्षिण की ओर पश्चिम साईड लेते हुये विजय जैन के मकान से पश्चिम की ओर उत्तर दिशा को लेते हुये केदार पटवा के मकान से होते हुये पूर्व की ओर दक्षिण दिशा लेते हुये मुन्नालाल ठाकुर के मकान होते हुये उत्तर दिशा की पुर्व साईड चलते हुये प.चंदन सिंह के मकान से होते हुये गोपीनाथ मंदिर से पूर्व की ओर दक्षिणी साईड लेते हुये सतीश उडीसा वाले के मकान से होते हुये दक्षिणी दिशा में पश्चिमी साईड लेते हुये गिर्राज सोनी की

		दुकान तक
11		जगदीश शुक्ला के मकान से दक्षिणी की ओर पश्चिमी साईड लेते हुये विपतीराम के मकान से पश्चिमी दिशा की उत्तरी साईड लेते हुये गोपीनाथ स्कूल होते हुये ज्ञानचंद जैन के मकान से उत्तर की ओर पूर्वी साईड लेते हुये कोली बस्ती एवं मछला की पोखर पार धोबी एवं पहाडिया बस्ती की उत्तरी दिशा पुराने वार्ड न. 12 की सीमा तक भगवान वाली गली पूर्व की ओर दक्षिणी साईड लेते हुये महाराज सिंह ठाकुर के मकान से होते हुये पश्चिम दिशा मे उत्तर की साईड लेते हुये जगदीश शुक्ला के मकान तक
12		मरघटी रास्ता डोंगरपुर हाटमैदान की ओर चलते हुये डामर रोड की उत्तरी साईड में मरघटी से लेकर मकान धुधल्ला ओर ठाकुर नत्थी सिंह मार्ग की पश्चिमी साईड लेते हुये मकान धुधल्ला से मकान रामभरोसी ठाकुर तक रास्ता डोंगरपुर पर पोखर मछला को लेते हुये रास्ता की दक्षिणी साईड मे मकान हरविलास तक मरघटी पोददार से मकान ठाकुर होतम सिंह तक वहाँ से मरघटी मेहेतेकी तक
13		मनोरमा सिंह की कोठी से पूर्वी दिशा मे दक्षिणी साईड लेते हुये जगदीश बैरागी के मकान तक भगवान वाली गली की उत्तरी साईड लेते हुये पूरन सिंह ठाकुर के मकान से होते हुये पूर्वी दिशा में उत्तरी साईड चलते हुये कन्या पाठशाला मुख्य बाजार होते हुये उत्तरी दिशा में पश्चिमी साईड लेते हुये मनोरमा सिंह की कोठी तक
14		गिर्राज सोनी के बाडे से डाक्टर कॉलोनी की दोनो साईडों को एवं सभी गलियों नाले तक रमेश बेडिया नाले से उत्तरी दिशा लेते हुये धनपाल जी के स्कूल चलते हुये रमेश जैन के मकान से पश्चिम दिशा लेते हुये थाना एवं मस्जिद की साईड चलते हुये गिर्राज सोनी के बाडे तक
15		पंचायत समिति, तहसील प्रांगण से दोनो साईड उत्तर दक्षिण लेते हुये आदर्श विद्या मंदिर से चलते हुये वेदन कुशवाह के मकान तक एवं दाउजी मंदिर की रोड से पश्चिम दिशा की साईड लेते हुये विनोद बेडिया के मकान से उत्तरी दिशा से पूर्व की ओर चलते हुये नंदू हलवाई एवं नरायन सिंह ठाकुर की दुकान से दोनो साईड उत्तर दिशा चलते हुये बिजली घर रोडपर कब्रिस्तान पुलिया तक दोनो साईड तक एवं मुन्नी पंडित के मकान से पूर्व पश्चिम दिशा लेते हुये उत्तर की तरफ चलते हुये पंचायत समिति एवं तहसील प्रांगण तक
16		राजेश बेडिया के मकान से भुरा बेडिया के मकान से पूर्व की ओर उत्तरी दिशा को लेते हुये माता के मठ से दक्षिण की ओर पूर्व दिशा को लेते हुये हरदम सिंह के मकान होते हुये माधव सिंह के मकान से उत्तर की ओर पूर्व पश्चिम दोनो साईडों

		को लेते हुये माता का मठ गली तिराहे तक होते हुये माता के मंदिर की ओर होते हुये रामफूल के मकान से उत्तर की साईड पश्चिम की दिशा को लेते हुये आनंदी कीझोंपडी एवं पंडित गजाधर के मकान से दक्षिण दिशा लेते हुये दाउजी मंदिर की ओर पूर्वी साईड लेते हुये पक्के नाले राजेश बेडिया के मकान तक
17		भास्कर नाई की दुकान से दक्षिण की ओर पूर्वी साईड लेते हुये पोददारों की धर्मशाला होते हुये उत्तरी साईड पूर्वी दिशा मंगल भैया जी के मकान को लेते हुये मुलुआ ठाकुर के चबूतरा से पश्चिम साईड उत्तर की ओर लाला जी के बाडे को लेते हुये रामभरोसी बाढई के मकान तक पश्चिमी साईड
18		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेसिक स्कूल की साईड लेते हुये बाबुलाल राठौर के मकान से दक्षिण की साईड लेते हुये भगवानसहाय पं. के मकान से दक्षिण की तरफ कछियात गली नाई बस्ती होते हुये जगदीश बाढई के मकान तक रामचंद्र जी के मंदिर एवं प्रतिभा स्कूल वाली साईड लेते हुये जगदीश झा के मकान से पश्चिमी साईड लेते हुये नयावास के बाईपास रोड तक।
19		चरण सिंह ठाकुर के दुकान से दक्षिण साईड पूर्व दिशा से चलते हुये हीरालाल सोनी के मकान से चलते हुये महदवार स्कूल से दक्षिण की ओर पश्चिम साईड लेते हुये भोगीराम पं. के मकान से उत्तरी साईड लेते हुये रमाकांत पारासर के मकान की ओर चलते हुये मुख्य बाजार पटैमा कुआ होते हुये उत्तरी दिशा मे पूर्वी साईड लेते हुये चरण सिंह ठाकुर की दुकान तक
20		मनिहार गली वकील खॉ के मकान से पश्चिमी दिशा की उत्तरी साईड लेते हुये अजमेरी खॉ की दुकान एवं एस के टेलर एवं भगवती पं. वाली गली लेते हुये अजमेरी खॉ की दुकान होते हुये उत्तर की तरफ पूर्वी साईड लेते हुये पटैमा कुआ से भोगीराम पंडित के मकान होते हुये बजरिया होते हुये पंकज जैन एवं विपिन जैन के मकान की दोनो साईड इरादत अली पटवारी के मकान से दक्षिण की ओर पश्चिम साईड लेते हुये पंचायती चबूतरा से होते हुये ओमप्रकाश राठौर के मकान से दक्षिण दिशा पश्चिमी साईड चलते हुये वकील खॉ के मकान तक
21		प्रवीण जैन के मकान से पूर्वी दक्षिणी दिशा में उत्तरी साईड चलते हुये अन्तराम पंडित के मकान से होते हुये उत्तर दिशा में पश्चिमी साईड लेते हुये महादेव मंदिर चबूतरा से उत्तर की ओर दोनो साईड लेते हुये गोपालपुरा वालों के मकान तिराहे होते हुये उत्तर की ओर पूर्वी साईड किशोरा की चक्की तक एवं तिराहे से दक्षिण की ओर पूर्वी साईड नाईयों बाखर तक
22		रामसेवक पंसारी की दुकान से पूर्वी साईड दक्षिण की ओर चलते हुये डा. रामखिलाडी की दुकान होते हुये उत्तर की साईड पूर्वी दिशा चलते हुये पतरा के

		मकान होते हुये मनहार गली की दक्षिणी साईड पश्चिम की ओर चलते हुये भानसिंह के मकान की साईड होते हुये रामसेवक पंसारी की दुकान तक
23		पुलिस चौकी से मेन रोड पुर्व दिशा की ओर उत्तर की साईड लेते हुये सुंदर पहाडिया के घर से होते हुये दक्षिण की ओर पूर्वी साईड लेते हुये रामलखन मनौना वाले के मकान से पुर्व की ओर उत्तरी साईड लेते हुये रोशन मैरिज होम की ओर नगरपालिका सीमा तक एवं एल.सी.एम स्कूल से पश्चिम की ओर दक्षिणी साईड बाईपास रोड पीरकी मस्जिद की साईड होते हुये प्रहलाद धीमर के मकान होते हुये दक्षिणी साईड लेते हुये श्रीनारायण गुप्ता की दुकान होते हुये दक्षिण की तरफ पूर्वी साईड लेते हुये पुलिस चौकी तक
24		आकाश फिलिंग स्टेशन से दक्षिणी साईड लेते हुये पुर्व की ओर अजयपाल सिंह की कोठी की साईड लेते हुये नाहिला रोड की समस्त कालोनी लेते हुये नाहिला रोड से पुर्व की ओर दक्षिणी साईड लेते हुये हिदुस्तान डेयरी तक कब्रिस्तान होते हुये पुर्व की दिशा दक्षिणी साईड लेते हुये नये वाटर वक्स को लेते हुये दक्षिण की ओर नगरपालिका सीमा तक रमजानी कॉलोनी एवं इस रोड की समस्त कॉलोनीयाँ दोनो साईड नगरपालिका सीमा तक
25		दारा पं. की दुकान से दक्षिण की ओर पश्चिमी साईड वाल्मीकि धर्मशाला तक एवं जाटव धर्मशाला से दोनो साईड लेते हुये रिशी पं. के मकान से होते हुये दक्षिण की ओर पूर्वी साईड पटसारिया गली होते हुये रामदास लहचोरिया के मकान तक
26		मास्टर रामगोपाल जाटव के मकान से दक्षिण की ओर पूर्वी साईड लेते हुये कल्लू ठाकुर के मकान से दोनो साईड दक्षिण की ओर लेते हुये बाईसा के मकान से संतोषी माता मंदिर होते हुये उत्तरी साईड लेते हुये बाईपास रोड क्रॉस कर उत्तर की साईड एल.सी.एम स्कूल के सामने तक एवं पिनाहट रोड के चौराहे से पश्चिम की ओर दक्षिण दिशा लेते हुये भूतेश्वर मंदिर होते हुये मा. रामगोपाल जाटव के मकान पीपल तक
27		गनपत नट के मकान से उत्तर की ओर पश्चिमी साईड लेते हुये अशोक गुसाई के मकान से पश्चिमी दिशा दक्षिणी साईड लेते हुये प्रताप ठाकुर के मकान से उत्तरी दिशा पश्चिमी साईड लेते हुये पं. रामनिवास के मकान से दक्षिणी साईड पश्चिमी दिशा चलते हुये बडे जैन मंदिर को लेते हुये रोहाई रमेश ददा के मकान से दक्षिण की ओर पूर्वी साईड लेते हुये गोपाली जाटव के मकान से पुर्व की ओर उत्तरी दिशा लेते हुये प्रताप की दुकान से पुर्व की ओर उत्तर दिशा लेते हुये गनपत नट के मकान तक

28	आस्क अली के मकान से अफजल खॉ रफीक खॉ की गली लेते हुये हनुमान जी मंदिर से उत्तर की ओर पश्चिम दिशा लेते हुये रामबाबू चैंपा की दुकान से पश्चिम की ओर दक्षिणी साईड चलते हुये डबला की चक्की तक एवं धोबी गली और समरोलिया गली की दोनो साईडों को लेते हुये कप्तान ठाकुर के मकान तक
29	अभूकी मंदिर नयाबास से दक्षिणी दिशा पूर्वी साईड लेते हुये माखन चौधरी के मकान से पूर्व की ओर उपाध्याय गली भगवान सिंह उपाध्याय के मकान से पूर्व की ओर चौराहे से दोनो साईड लेते हुये बाईपास रोड तक
30	सिलावट पुलिया से धोबी महतर बस्ती पश्चिम की ओर दोनो साईड चलते हुये रोहाई मोहल्ला पं. नेमीचंद के मकान से पश्चिम की ओर उत्तरी साईड चलते हुये मदन चौरसिया के मकान तक एवं मानसिंह ठाकुर के मकान से उत्तर की ओर चलते हुये इब्राहीम खां के मकान के दोनो साईड चलते हुये पूर्व की ओर मुकेश उपाध्याय के मकान से सामने तारा की चक्की वाली गली दोनो साईड लेते हुये हरिजन बस्ती तिराहे तक
31	रामेश्वर गिलौंचिया की चक्की से पूर्वी साईड दक्षिण की ओर चलते हुये गोपाल ठाकुर के मकान की साईड होते हुये शांतिलाल जैन के मकान की दोनो साईड होते हुये उत्तर की ओर कल्ला कुशवाह की दुकान होते हुये डा. पूरन सिंह के मकान से पूर्व की ओर हाकिम कुशवाह की ठार को लेते हुये वनखण्डेश्वर मंदिर होते हुये बाइपास रोड पिनाहट तिराहे से पश्चिम की ओर उत्तरी साईड लेते हुये राजेन्द्र ठाकुर के मकान होते हुये उत्तरी दिशा सोवरन श्रीवास्तव के मकान से होते हुये पश्चिमी दिशा की उत्तरी साईड लेते हुये प्रेमा ठाकुर के मकान से उत्तर की ओर पूर्वी साईड लेते हुये शांतिलाल जैन के मकान तक
32	दूल्हेराय का घर समस्त
33	चितामन की गढी, कोर्ट के पास निशाद बस्ती, जाटव बस्ती घना का पुरा रोड
34	चुंगी सिद्ध बाबा के सामने निषाद बस्ती एवं बडी सिंधावली रोड कुंवरसेन के मकान से होते हुये बछेकी मंदिर के सामने दोनो साइडों को लेते हुये पंचमुखी हनुमान जी से करीलकी रोड की उत्तर दक्षिण दोनो साईड की कॉलोनीयों को लेते हुये माधों सिंह के चिलर तक !
35	चौधरी का बाग गिलौंचियों का बाग कोट परिसर की पश्चिमी साईड को लेते हुये एवं समस्त परिहार की मढैया मुकेश सिसौंदिया एवं जीवाराम की मढैया गोपालपुरा के बघेलों की समस्त ठार

अधिषाशी अधिकारी
नगर पालिका राजाखेडा

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।